



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 1091]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

**का.आ. 1226(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आधार, (वित्तीय और अन्य सहायिक्रियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) पैरा-1 के उप-पैरा (2) में “31 मार्च, 2019 तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “30 जून, 2019 तक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
- (ख) पैरा-2 के उप-पैरा (1) में “31 मार्च, 2019 तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “30 जून, 2019 तक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

एस. जगन्नाथन, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. 2040 (अ), तारीख 29 जून, 2017, का. आ. 3176 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 2017, का.आ. 4065 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2017, का.आ. 1460 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2018, का.आ. 3171 (अ) तारीख 29 जून, 2018, का.आ. 4998 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2018 तथा का.आ. 6353 (अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2018 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2019

**S.O. 1226(E).**—In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, vide number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017, namely : -

In the said notification,-

- (a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters “by 31st March, 2019”, the words, figures and letters “by 30th June, 2019” shall be substituted;
- (b) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters “by 31st March, 2019”, the words, figures and letters “by 30th June, 2019” shall be substituted.

[F.No. 9(2)/2016-PD II]

S. JAGANNATHAN, Jt. Secy.

**Footnote :-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017 and subsequently amended vide notification number S.O. 2040(E), dated the 29th June, 2017, S.O. 3176(E), dated the 28th September, 2017, S.O. 4065(E), dated the 26th December, 2017, S.O. 1460(E), dated the 2nd April, 2018, S.O. 3171(E), dated the 29th June, 2018, S.O. 4998(E), dated the 27th September, 2018 and S.O. 6353(E), dated 27th December, 2018.